

## वस्त्र मंत्रालय

### मंत्रिमंडल के लिए मार्च, 2018 माह का मासिक सार

#### 1. नीतिगत निर्णय:-

- क. **एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना का अनुमोदन:** केंद्र सरकार ने 21 मार्च, 2018 को एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना को अनुमोदित किया। जिस योजना के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष के लिए 2162 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है उसे केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा तथा रेशम के उत्पादों और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए आरएंडडी, प्रशिक्षण, बीज आपूर्ति, बाजार विकास की सहायता प्रदान की जाएगी।
- ख. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के अंतर्गत संशोधित दिशानिर्देश:** एसआईटीपी के अंतर्गत संशोधित दिशानिर्देश जो पीपीपी पद्धति में क्रियान्वित एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है उसे दिनांक 27 मार्च, 2018 को अधिसूचित किया गया है।

#### 2. महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- i. **हथकरघा:** फ्रांस के राष्ट्रपति माननीय श्री इममेनुअल मैकरोन ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिनांक 12 मार्च, 2018 को दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र और संग्रहालय), वाराणसी का दौरा किया तथा कारीगरों और बुनकरों के शिल्प पर प्रदर्शनी की समीक्षा करते समय उनके साथ बातचीत की। भारत के राष्ट्रपति ने भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ 26 मार्च, 2018 को इस संकुल का दौरा किया और मंत्रालय द्वारा की गई व्यवस्था की प्रशंसा की।

स्वदेशी उपभोक्ताओं के बीच हथकरघा उत्पादों का संवर्धन करने और हथकरघा बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए समर्थ बनाने हेतु मंत्रालय ने मार्च, 2018 के दौरान अमृतसर, बडौदरा, हैदराबाद, रांची और गुवाहाटी में राष्ट्रीय स्तर के विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया है।

- ii. **हस्तशिल्प:** दिनांक 17 मार्च, 2018 को त्वांग (अरुणाचल प्रदेश) में हस्तकला सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान, पहचान पत्र और उन्नत औजार किट वितरित किए गए। इस शिविर के दौरान कुल 103 हस्तशिल्प कारीगरों ने भाग लिया।

- iii. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी):** जम्मू एवं कश्मीर के लिए पुनर्निर्माण योजना संघटक के अंतर्गत लद्दाख में विभिन्न स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों को मार्च, 2018 के दौरान 748.99 लाख रुपए जारी किए गए।

- iv. **कपास:** मार्च, 2018 के दौरान कपास की अखिल भारत आवक 39.05 लाख गांठ थी। चूंकि कच्ची कपास का बाजार मूल्य मार्च, 2018 में अधिकतर समय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक था इसलिए एमएसपी के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा 10,530 गांठों की ही खरीद की गई।
- v. **रेशम:** कर्नाटक में वस्त्र क्षेत्र के विकास और कर्नाटक राज्य में इसकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए बेंगलुरु में 11-12 मार्च, 2018 को माननीय वस्त्र मंत्री ने 'कर्नाटक में वस्त्र - 2018' नामक एक विशाल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान 2017-18 से 2019-20 के दौरान प्रमुख उपलब्धियों तथा प्रस्तावित योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा एक थीम पवेलियन की भी व्यवस्था की गई थी। सिल्क मार्क प्राधिकृत 6 उपयोगकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और शुद्ध रेशम उत्पादों के नितांत रेंज को प्रदर्शित किया और उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिली। बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- vi. **टीयूएफएस:** प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत मार्च, 2018 में कुल 148.83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान 1883.39 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 104.54 करोड़ रुपए सब्सिडी की आवश्यकता के साथ 290 यूआईडी जारी किए गए हैं।
- vii. **साधारण विद्युतकरघा स्व-स्थाने उन्नयन योजना:** मार्च, 2018 के दौरान कुल 61.421 किट लगाए गए और 7,196.25 लाख रुपए व्यय किया गया। उपर्युक्त अवधि के दौरान संशोधित समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत जारी की गई सब्सिडी 5.00 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जीआईएस योजना के अंतर्गत मार्च, 2018 में विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा 14,163 विद्युतकरघा कामगार पंजीकृत किए गए।
- viii. **पूर्वोत्तर में जियोटेक्सटाइल्स एवं एगोटेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना:** मार्च, 2018 के दौरान एनईआर में पीडब्ल्यूडी को कुल 7.83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और एनईआर में एगोटेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना के अंतर्गत ससमीरा को 4.304 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
- ix. **पटसन:** भारतीय पटसन निगम ने चालू पटसन वर्ष के दौरान दिनांक 31.03.2018 तक 166 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त रूप से 5.35 लाख क्विंटल खरीद की है। पिछले 5 वर्षों में जेसीआई द्वारा यह कच्ची पटसन की सर्वाधिक खरीद है।

\*\*\*\*\*